

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 660]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2018-पौष 8, शक 1940

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. बी-8-8-2018-14-2- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2018-19 में पटवारी हल्कावार, तहसील एवं जिला स्तर की फसलों की अधिसूचना दिनांक 599, 6 नवम्बर 2018 को जारी की जा चुकी है. जारी अधिसूचना के अतिरिक्त जिला दतिया, गुना एवं बड़वानी के शेष पटवारी हल्कों की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है. संलग्न सूची अनुसार जिला दतिया, गुना एवं बड़वानी के पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.

### किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2018-19	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.वृत्त का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक	पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्कों में सम्मिलित ग्रामों के नाम	गहूँ सिंचित	गहूँ असिंचित	चना	राई-सरसा
निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है ।									
दतिया	सेवदा	थरेट	38	टोड़ापहाड़	टोड़ापहाड़, पहाड़	गहूँ सिंचित			राई-सरसा

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल  
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2018-19	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.वृत्त का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक	पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्कों में सम्मिलित ग्रामों के नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई-सरसाँ
निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है ।									
गुना	आरोन	बरखेड़ाहाट	1	पाटन	पाटन	गेहूँ सिंचित		चना	
			1	पाटन	खैरा				
			1	पाटन	मिर्जापुर				
			1	पाटन	संकरा				
			1	पाटन	मोडनी	गेहूँ सिंचित		चना	
			2	सगावरखेड़ा	सगाबरखेड़ा				
			2	सगावरखेड़ा	बूढ़ाडोंगर				
			2	सगावरखेड़ा	उमरिया				
			2	सगावरखेड़ा	मोमनबाड़ा				
			2	सगावरखेड़ा	रायपुरा				
			2	सगावरखेड़ा	गेलोन				
			2	सगावरखेड़ा	फतेहपुर				
			3	बरखेड़ा हाट	बरखेड़ा हाट	गेहूँ सिंचित		चना	
			3	बरखेड़ा हाट	हमीर गढ़	गेहूँ सिंचित		चना	
			4	वारोद	वारोद				
			4	वारोद	पिरोदाकला				
			4	वारोद	चंदन खिरिया	गेहूँ सिंचित		चना	
			5	देवरी	देवरी				
			5	देवरी	रूसिया	गेहूँ सिंचित		चना	
			6	भादौर	भादौर	गेहूँ सिंचित		चना	
			7	नठाई	नठाई	गेहूँ सिंचित		चना	
			7	नठाई	पिपरोदा खुर्द				
			7	नठाई	सेमरा खुर्द				
			7	नठाई	पाली				
			8	घटावदा	घटावदा	गेहूँ सिंचित		चना	
			8	घटावदा	भूत मढ़ी	गेहूँ सिंचित		चना	
			9	देहरीखुर्द	देहरीखुर्द				
			10	बूढ़ाखेड़ा	बूढ़ाखेड़ा	गेहूँ सिंचित		चना	
			10	बूढ़ाखेड़ा	रूसल्ला	गेहूँ सिंचित		चना	
			11	खजूरी	खजूरी				
			12	अमोदा	अमोदा	गेहूँ सिंचित		चना	
			12	अमोदा	बमूरिया				
			12	अमोदा	गुरिया				
			12	अमोदा	बुढ़ेना				
			13	बनवीरखेड़ी	बनवीरखेड़ी	गेहूँ सिंचित		चना	
			13	बनवीरखेड़ी	रामगिरखुर्द				
			13	बनवीरखेड़ी	अरसखेड़ा				
			14	शहरोग	शहरोग	गेहूँ सिंचित		चना	
			14	शहरोग	पुरा				
			14	शहरोग	अमरपुरा				
			14	शहरोग	सुलतानपुर				

			14	शहरोग	निनाय			
			15	झाझोन	झाझोन	गेंहूँ सिंचित		चना
			15	झाझोन	भेसायला			
			16	सावन भादो	सावन भादो			
			16	सावन भादो	खेड़लीडांग			चना
			16	सावन भादो	इस्माइलपुर			
			17	ककरूआ	ककरूआ			
			17	ककरूआ	ककराई	गेंहूँ सिंचित		चना
			17	ककरूआ	विशानखेड़ा			
			17	ककरूआ	शयोपुर			
			17	ककरूआ	अमरपुरावीरान			
			18	कुश्मान	कुश्मान	गेंहूँ सिंचित		चना
			18	कुश्मान	कुमरयाई			
			19	पिपरोदा मैना	पिपरोदा मैना			
			19	पिपरोदा मैना	चिरोला	गेंहूँ सिंचित		चना
			19	पिपरोदा मैना	पडरयाई			
गुना	आरोन	आरोन	20	इमलिया	इमलिया	गेंहूँ सिंचित		चना
			20	इमलिया	बांसखेड़ी			
			21	रामगिरकेला	रामगिरकेला	गेंहूँ सिंचित		चना
			21	रामगिरकेला	महुआखेड़ाखुर्द			
			22	आरोन	आरोन	गेंहूँ सिंचित		चना
			23	रिजोदा	रिजोदा	गेंहूँ सिंचित		चना
			23	रिजोदा	जुग्या वीरान			
			24	शहवाजपुर	शहवाजपुर			
			24	शहवाजपुर	उरझनयाई	गेंहूँ सिंचित		चना
			24	शहवाजपुर	मोहरीखुर्द			
			24	शहवाजपुर	चैखेट			
			25	सुगनयाई	सुगनयाई	गेंहूँ सिंचित		चना
			25	सुगनयाई	जसवंतपुर			
			26	पहारूआ	पहारूआ			
			26	पहारूआ	रूसल्लीखुर्द	गेंहूँ सिंचित		चना
			26	पहारूआ	खैराई			
			27	मातामूडरा	मातामूडरा	गेंहूँ सिंचित		चना
			27	मातामूडरा	हादीपुर			

1.5

## किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2018-19	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.वृत्त का नाम	पटवारी हल्का क्रमांक	पटवारी हल्का का नाम	पटवारी हल्कों में सम्मिलित ग्रामों के नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई-सरसों
निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है ।									
बडवानी	पाटी	पाटी	4	पोसपुर	पोसपुर	गेहूँ सिंचित			
					घुघसी				
			5	खाजपुर	खाजपुर	गेहूँ सिंचित			
					चिप्याखेड़ी				
			7	लिम्बी	लिम्बी	गेहूँ सिंचित			
			10	सावारयापानी	सावारयापानी	गेहूँ सिंचित			
			11	आवली	आवली	गेहूँ सिंचित			
			12	वेरवाडा	वेरवाडा	गेहूँ सिंचित			
			13	पाटी	पाटी	गेहूँ सिंचित			
					चाकल्या				
			14	बुदी	बुदी	गेहूँ सिंचित			
					मेघा				
			15	ओसाडा	ओसाडा	गेहूँ सिंचित			
					चन्दनदेवी				
			16	अंजराडा	अंजराडा	गेहूँ सिंचित			
			17	पलवट	पलवट	गेहूँ सिंचित			
			18	वलन	वलन	गेहूँ सिंचित			
					मुबासवाडा				
			22	कुंभ खेत	कुंभ खेत	गेहूँ सिंचित			
					भेसारी				
			23	देरवाल्या	देरवाल्या	गेहूँ सिंचित			
			28	चिकलकुआवाडी	चिकलकुआवाडी	गेहूँ सिंचित			
					पंचगाँव				
					किराडी				
			29	गंधावल	गंधावल	गेहूँ सिंचित			
					झामर				
			30	ठेगच्या	ठेगच्या	गेहूँ सिंचित			
			31	अतरसंभा	अतरसंभा	गेहूँ सिंचित			
					टपकला				
			32	धमारिया	धमारिया	गेहूँ सिंचित			
					सपाइदुवाली				
					डोगल्यापानी				
			33	ठान	ठान	गेहूँ सिंचित			
					कदवाल्या				
					सिंधी खोदरी				
			34		पखाल्या				

				पखाल्या	डामारया खोदरा समल्या खोदरा	गेंहूँ सिंचित			
			36	सिधी	सिधी	गेंहूँ सिंचित			
			37	डोंगरगांव	डोंगरगांव	गेंहूँ सिंचित			
बडवानी	वरला	वरला	1	[01] मालवन	मालवन	गेंहूँ सिंचित			
			2	[02] कुण्डिया	कुण्डिया	गेंहूँ सिंचित			
			3	[03] सोलवन	सोलवन	गेंहूँ सिंचित			
			4	[04] कोलकी	कोलकी	गेंहूँ सिंचित			
			6	[06] हिंगवा	हिंगवा	गेंहूँ सिंचित			
			7	[07] केरमला	केरमला	गेंहूँ सिंचित			
			9	[09] बलवाडी	बलवाडी	गेंहूँ सिंचित			
			10	[10] वरला	वरला सेली	गेंहूँ सिंचित			
			11	[11] खुटवाड़ी	खुटवाड़ी होल	गेंहूँ सिंचित			

भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2018

क्र. बी-8-8-2018-चौदह-2- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2018-19 के लिये संलग्न सूची अनुसार जिला धार में चना फसल के लिये अल्पकालीन फसल ऋणमान के बराबर प्रति हेक्टेयर बीमित राशि घोषित की जाती है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.

प्रति हेक्टेयर स्केल आफ फायनेंस (ऋणमान) रबी 2018-19

(राशि रु. में )

क्र	जिला	गेंहूँ सिंचित	गेंहूँ असिंचित	चना	राई सरसों	अलसी	मसूर	बैठक दिनांक
1	धार			30000				17-07-2017